



NEWSLETTER

शनिवार, 30 दिसंबर 2023 | वॉल्यूम - 78

Weekly cotton bales market | Weekly cotton arrival | Important News

TEXTILE STOCK MARKET UPDATE




भारतीय वैज्ञानिक कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास का आह्वान करते हैं

IMPORT & EXPORT UPDATE



GOLD : 63189
SILVER : 74400
CRUDE OIL : 5998

सीएआई का कहना है कि उपज में गिरावट और कम कीमत के कारण कपास का रकबा 10% तक घट सकता है



सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 के खरीफ़ सीज़न में, कपास की फसल लगभग 12.38 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत कम थी।

2023-24 सीज़न में पिछले 15 वर्षों में अब तक का सबसे कम उत्पादन 29.41 मिलियन गांठ दर्ज करने के बाद, अगला वर्ष भी कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि पैदावार में गिरावट के कारण कुल बुआई में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। और कम कीमत की प्राप्ति, कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीएआई) द्वारा किए गए एक आकलन से पता चला है।

कपास विपणन सीज़न अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, और फसल की खेती बड़े पैमाने पर मानसून के आगमन के बाद खरीफ़ सीज़न के दौरान की जाती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 के खरीफ़ सीज़न में, कपास की फसल लगभग 12.38 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत कम थी।

वार्षिक सम्मेलन में सीएआई के निवर्तमान अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, "इस साल (2023-24) कपास की बुआई पहले ही औसतन 18 प्रतिशत कम हो गई है और मुझे डर है कि अगर बुआई कम हुई, तो हमारा कपास उत्पादन और कम हो सकता है।" एसोसिएशन की आम बैठक.

गनात्रा को बाद में एक और कार्यकाल के लिए सीएआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया।

सीएआई की नवीनतम फसल समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023-24 सीज़न में, भारत में कपास का उत्पादन 2022-23 की तुलना में आठ प्रतिशत कम 29.4 मिलियन गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) होने की उम्मीद है, जो 15 वर्षों में सबसे कम है।

गनात्रा ने कहा कि भारतीय कपास उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए।

उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का लगभग 38 प्रतिशत कपास का रकबा है, जो वैश्विक स्तर पर 33 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर है।

लेकिन इसकी प्रति हेक्टेयर उपज लगभग 396 लिंट (जो लगभग 2.22 गांठें) है, जबकि दुनिया की औसत उपज लगभग 675 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर (लगभग 41 प्रतिशत कम) है।

“कपास की पैदावार में इस कमी का मुख्य कारण यह है कि हमारी बीटी बीज तकनीक बहुत पुरानी है। अब हमें नये बीजों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो प्रभाव भी भारत की कपास की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जहां कपास उगाया जाता है उसका 73 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित नहीं है। इसके अलावा, गुलाबी बॉलवर्म के हमले से पैदावार कम हो रही है,” गनात्रा ने कहा।

काँटन मार्केट की साप्ताहिक हलचल पर एक नजर

SMART INFO SERVICES

CALL : 91119 77775

WEEKLY CHART 30.12.2023

ICE COTTON

MONTH	22.12.23	29.12.23	WEEKLY CHANGE
MARCH	79.76	81.00	1.24
MAY	80.64	82.15	1.51
JULY	81.07	82.83	1.76

MCX (COTTON)

JAN	56200	56380	180
MAR	57680	58080	400

NCDEX (KAPAS)

APRIL	1568	1558	-10
-------	------	------	-----

NCDEX (COCUD KHAL)

JAN	2752	2763	11
FEB	2768	2778	10
MAR	2803	2812	9

SMART INFO SERVICE CALL : 91119 77775

CURRENCY (\$)

INDIAN (Rupee)	83.14	83.21	0.07
PAK (Pakistani Rupee)	282.924	281.163	-1.761
CNY (Chinese yuan)	7.13245	7.08104	-0.05141
BRAZIL (Real)	4.85901	4.85246	-0.00655
AUSTRALIAN Dollar	1.47058	1.46738	-0.0032
MALAYSIAN RINGGITS	4.65415	4.59472	-0.05943

COTLOOK "A" INDEX	89.40	91.40	2
BRAZIL COTTON INDEX	82.55	82.25	-0.30
USDA SPOT RATE	75.76	76.96	1.20
MCX SPOT RATE	54860	55300	440
KCA SPOT RATE (PAKISTAN)	17000	17000	0

GOLD (\$)	2064.40	2071.80	7.4
SILVER (\$)	24.473	24.025	-0.448
CRUDE (\$)	73.49	71.33	-2.16

दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह इंटरनेशनल काँटन मार्केट में तेजी देखने को मिली /

इंटरनेशनल काँटन एक्सचेंज के मार्च 24, मई, 24 और जुलाई 24 माह के लिए काँटन के भाव क्रमशः 1.24, 1.51 और 1.76 सेंट तक भाव बढ़े।

भारतीय बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर काँटन के दाम में बढ़त देखी गई। जनवरी माह के सौदे के भाव में 180 रूपए प्रति कैंडी की बढ़त आयी।

एनसीडीएक्स पर कपास के भाव 10 रूपए प्रति 20 किलो तक गिरे, वही खल के भाव में क्रमशः जनवरी और फरवरी माह में 11 और 10 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़त हुई।

अन्य देशों के काँटन मार्केट पर नजर करें तो काँटलुक "ए" इंडेक्स में बढ़त देखी गई, यूएसडीए स्पॉट रेट 1.20 सेंट बढ़ा और एमसीएक्स स्पॉट रेट 440 रूपए प्रति कैंडी बढ़ा, वही ब्राजील काँटन इंडेक्स पर 0.30 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।

देश भर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में इस सप्ताह कपास की आवक

SMART INFO SERVICES

ALL INDIA COTTON WEEKLY ARRIVAL

CALL : 91119 77775

STATE	25.12.23	26.12.23	27.12.23	28.12.23	29.12.23	30.12.23
PUNJAB	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
HARYANA	6,500	6,500	6,000	7,000	7,000	6,500
UPPER RAJASTHAN	10,000	10,000	10,000	9,000	8,000	8,000
LOWER RAJASTHAN	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500	6,000
NORTH ZONE	26,500	26,500	26,500	26,500	25,500	23,500
GUJRAT	24,000	33,000	38,000	40,000	34,000	34,000
MADHYA PRADESH	5,000	12,000	12,000	11,000	12,000	9,000
MAHARASHTRA	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000
CENTRAL ZONE	69,000	85,000	90,000	91,000	86,000	88,000
KARNATAKA	15,000	15,000	20,000	18,000	18,000	15,000
ANDHRA PRADESH	7,000	7,500	8,000	8,000	7,000	7,000
TELANGANA	25,000	30,000	45,000	50,000	48,000	45,000
TAMILNADU	-	-	-	-	-	-
SOUTH ZONE	47,000	52,500	73,000	76,000	73,000	67,000
ODISHA	1,100	2,000	2,000	2,000	2,500	1,900
TOTAL	143,600	166,000	191,500	195,500	187,000	180,400

ARRIVAL IN 170 Kg.



POONAM ENGINEERING WORKS

All Pulses Dall Mill are Manufacturing | Grain Cleaning Plant, Besan Plant | Chakki Aata Plant | Industrial Dust Collector etc.

Our New Established Farm




Gravity Separator



Vibro Separator (MTRA)



Sheet Cutting CNC Lezer Machine



Pulverizer



Centrifugal



Tubes Cutting CNC Lezer Machine



Grain Dryer



Grain Dryer Trolley



Plot No. N-243 & N-246 MIDC Phase 4, Near Yevta Square, Akola Growth Center, Shivapur, Akola, Dist. Akola - MH (INDIA) - 444 104

Mob.: +91 9766477484, +91 9730003529, 0724-2991484

Office No. : +91 9371007484

Web : www.poonamengworks.in

Email : poonamengworks4@gmail.com

भारतीय वैज्ञानिक कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास का आह्वान करते हैं



वे सलेम में उत्पादकता को मौजूदा 447 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हैं देश के शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने तमिलनाडु के सेलम में "कपास अनुसंधान के भविष्य की ओर अग्रसर" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत को कपास की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सम्मेलन का आयोजन रासी सीड्स द्वारा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया (एफएसआईआई) के सहयोग से अपने स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के रूप में किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के कपास पर काम करने वाले लगभग 150 शीर्ष शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों और देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों में से एक देश में कपास उत्पादकता को मौजूदा 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह तब है जब भारत रकबा (136.1 लाख हेक्टेयर) और उत्पादन (170 किलोग्राम की 342 लाख गांठें) में अन्य देशों से शीर्ष पर है।

प्रमुख घटक

विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम के बदलते मिजाज, बढ़ते कीट और रोग की चुनौतियाँ और उन्नत प्रौद्योगिकियों को धीमी गति से अपनाने जैसे कारकों ने उपज में वृद्धि में बाधा उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 5-7 वर्षों में उत्पादकता में गिरावट आई है।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत में कपास की फसल में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका और तत्काल आवश्यकता को दोहराना, कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए समग्र समाधान तलाशना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का कपास क्षेत्र टिकाऊ, लाभदायक और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे, तकनीकी और नीतिगत हस्तक्षेप को सक्षम करने पर विशेष ध्यान देना समय की मांग है, "बीज क्षेत्र में 50 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी, रासी सीड्स के अध्यक्ष एम रामासामी ने कहा।

सम्मेलन में, रासी सीड्स ने केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), आईसीएआर, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के साथ कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य पिक बॉलवर्म खतरे के प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता लाने और कपास की फसल में सुधार पर अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने के लिए रेडियो प्रसारण के माध्यम से कपास सलाह सहित किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है।

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (टीएएस) के संस्थापक-अध्यक्ष आरएस परोदा ने कपास अनुसंधान में साझेदारी का आह्वान किया, जो कपास उद्योग के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बेहतर मार्ग का निर्धारण

डीके यादव, एडीजी (बीज), आईसीएआर, ने कहा: "हमारे सामने आने वाली विशिष्ट बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, आगे एक सार्थक रास्ता तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत की क्षमताएं विशाल हैं और कम उत्पादकता की चुनौती से निपटने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है।"

सीआईसीआर-नागपुर के निदेशक वाईजी प्रसाद ने कहा, "वर्तमान में कपास की फसल को प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक कारकों से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी समय की मांग है।"

एफएसआईआई के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि भारत को बीज और जैव प्रौद्योगिकी में नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रति विज्ञान आधारित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

एफएसआईआई के महानिदेशक राम कौंडिन्य ने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान में निरंतर निवेश उन चुनौतियों पर काबू पाने की कुंजी है जो वर्तमान में कपास की फसल की पैदावार को प्रभावित कर रही हैं।

TOP 5

NEWS OF THE WEEK

राज्य में सीसीआई द्वारा कपास की खरीद में तेजी आई

मध्य प्रदेश के हाजिर बाजारों में कपास की आवक में उछाल और कम कीमतों के बीच, कपास के व्यापार और खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय के तहत स्थापित एक नोडल एजेंसी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा कपास की खरीद में तेजी आई है। गति बढ़ाओ।

कोयंबटूर, तिरुपुर में एमएसएमई ने बिजली शुल्क में कमी की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के हजारों लोगों ने निश्चित बिजली शुल्क में संशोधन की मांग को लेकर बुधवार को कोयंबटूर शहर में एक मानव श्रृंखला बनाई।

व्यापारिक जहाजों के हमलों से कपड़ा निर्यात माल ढुलाई लागत बढ़ गई

लाल सागर सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, लेकिन हाल के हमलों ने व्यापारी जहाजों को 6,000 समुद्री मील की अतिरिक्त दूरी जोड़कर अफ्रीका के चारों ओर घुमावदार मार्ग अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है।

कम खरीददारों के कारण नई कपास की कीमत में गिरावट आई है

कपड़ा मिलों से खरीदारी में गिरावट के बीच हाजिर बाजारों में कपास की आपूर्ति में बढ़ोतरी ने नए सीजन के कपास की कीमतों को कम कर दिया है, जिससे भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की ओर से खरीद बढ़ गई है।

कपास की आपूर्ति 345 लाख गांठ आंकी गई

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) का अनुमान है कि 2023-24 कपास सीजन के लिए देश में कपास की कुल आपूर्ति 345 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होगी।

कॉटन फिजिकल मार्केट दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह कॉटन के भाव में बढ़त वाला माहौल रहा।

यह सप्ताह कॉटन फिजिकल मार्केट के लिए बढ़त वाला रहा। नार्थ, साउथ और सेंट्रल तीनों झोनो में बढ़त देखी गई।

नार्थ झोन पंजाब में 25 रुपए प्रति मंड की बढ़त देखी गई। अपर राजस्थान में भी 50 रुपए प्रति मंड की बढ़त देखने को मिली, हरयाणा का मार्केट 30 रुपए प्रति मंड बढ़ा।

वही सेंट्रल झोन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाजार स्थिर रहा। वही गुजरात में 200 रुपय प्रति कैंडी की तेजी आयी।

साउथ झोन मार्केट में भी ओडिशा और कर्नाटक में क्रमशः 100 और 300 रुपय प्रति खण्डी की बढ़त देखी गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मार्केट स्थिर रहा।

STATE		25.12.23		30.12.23		CHANGE
STAPLE LENGTH		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	5,450	5,525	5,500	5,550	25
HARYANA	27.5/28	5,400	5,400	5,430	5,430	30
UPER RAJASTHAN	28	5,000	5,475	5,075	5,525	50
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	55,200	55,400	55,400	55,600	200
MADHYA PRADESH	29	54,300	54,800	54,200	54,800	0
MAHARASHTRA	29+ vid.	54,500	55,000	54,300	55,000	0
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775						
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5+	55,300	55,500	55,500	55,600	100
KARNATAKA	29 mm	54,500	54,700	54,500	55,000	300
ANDHRA PRADESH	29	54,000	54,500	54,000	54,500	0
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	55,000	55,500	55,200	55,500	0
NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality. Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy						



NEWSLETTER

Saturday, 30 December 2023 | Volume - 78

Weekly cotton bales market | Weekly cotton arrival | Important News




Indian scientists, call for cutting edge R & D to increase cotton yield



GOLD : 63189
SILVER : 74400
CRUDE OIL : 5998

Cotton acreage may drop by 10% on falling yield, low price, says CAI



In the 2023 kharif season, as per government data, cotton crop was sown in around 12.38 million hectares, which was over 3 per cent less than the previous year

After recording the lowest ever production in the last 15 years at 29.41 million bales in the 2023-24 season, the next year might also not look particularly good for the cotton crop with overall sowing projected to drop by almost 10 per cent due to falling yields and low price realisation, an assessment done by the Cotton Association of India (CAI) showed.

Cotton marketing season runs from October to September, and the crop is largely cultivated during the kharif season after the advent of monsoons.

In the 2023 kharif season, as per government data, cotton crop was sown in around 12.38 million hectares, which was over 3 per cent less than the previous year.

“Cotton sowing has already dropped by an average of 18 per cent this year (2023-24) and I fear that if the sowing reduces, our cotton production may go down further,” said Atul Ganatra, the outgoing president of CAI at the Annual General Meeting of the association.

Ganatra was later re-elected as the President of CAI for another term.

CAI’s latest crop committee report shows that in the 2023-24 season, cotton production in India is expected to be eight per cent less than in 2022-23 at 29.4 million bales (1 bale=170 kg), which is the lowest in 15 years.

Ganatra said the biggest challenge the Indian cotton industry faces today is how to increase domestic production.

He said India has around 38 per cent of the world’s cotton acreage, which is around 12.5 million hectares out of the 33 million hectares globally.

But its per hectare yield is just around 396 lint (which is around 2.22 bales), while the world’s average yield is almost 675 kg lint per hectare (almost 41 per cent less).

“The main reason for this reduction in cotton yield is that our BT seed technology is very old. We now need new seeds. Climate change and the El Niño effect are also hurting India’s cotton crop in a big way, as 73 per cent of the area where cotton is grown is not irrigated. Also, attacks from pink bollworms are reducing yields,” Ganatra said.

A look at the weekly movement of the cotton market

SMART INFO SERVICES

CALL : 91119 77775

WEEKLY CHART 30.12.2023

ICE COTTON

MONTH	22.12.23	29.12.23	WEEKLY CHANGE
MARCH	79.76	81.00	1.24
MAY	80.64	82.15	1.51
JULY	81.07	82.83	1.76

MCX (COTTON)

JAN	56200	56380	180
MAR	57680	58080	400

NCDEX (KAPAS)

APRIL	1568	1558	-10
-------	------	------	-----

NCDEX (COCUD KHAL)

JAN	2752	2763	11
FEB	2768	2778	10
MAR	2803	2812	9

SMART INFO SERVICE CALL : 91119 77775

CURRENCY (\$)

INDIAN (Rupee)	83.14	83.21	0.07
PAK (Pakistani Rupee)	282.924	281.163	-1.761
CNY (Chinese yuan)	7.13245	7.08104	-0.05141
BRAZIL (Real)	4.85901	4.85246	-0.00655
AUSTRALIAN Dollar	1.47058	1.46738	-0.0032
MALAYSIAN RINGGITS	4.65415	4.59472	-0.05943

COTLOOK "A" INDEX	89.40	91.40	2
BRAZIL COTTON INDEX	82.55	82.25	-0.30
USDA SPOT RATE	75.76	76.96	1.20
MCX SPOT RATE	54860	55300	440
KCA SPOT RATE (PAKISTAN)	17000	17000	0

GOLD (\$)	2064.40	2071.80	7.4
SILVER (\$)	24.473	24.025	-0.448
CRUDE (\$)	73.49	71.33	-2.16

There was a boom in the international cotton market in the last week of December.

Cotton prices for March 24, May, 24 and July 24 months of International Cotton Exchange increased by 1.24, 1.51 and 1.76 cents respectively.

An increase was seen in the prices of cotton on Multi Commodity Exchange (MCX) in the Indian market. There was an increase of Rs 180 per candy in the deal price of January.

On NCDEX, cotton prices fell by Rs 10 per 20 kg, while the price of Khal increased by Rs 11 and Rs 10 per quintal in the months of January and February respectively.

If we look at the cotton market of other countries, an increase was seen in Cotlook "A" index, USDA spot rate increased by 1.20 cents and MCX spot rate fell by Rs 320 per candy, while Brazil Cotton Index registered an increase of 2.95 points.

Cotton arrival this week in major cotton producing states across the country

SMART INFO SERVICES

ALL INDIA COTTON WEEKLY ARRIVAL

CALL : 91119 77775

STATE	25.12.23	26.12.23	27.12.23	28.12.23	29.12.23	30.12.23
PUNJAB	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
HARYANA	6,500	6,500	6,000	7,000	7,000	6,500
UPPER RAJASTHAN	10,000	10,000	10,000	9,000	8,000	8,000
LOWER RAJASTHAN	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500	6,000
NORTH ZONE	26,500	26,500	26,500	26,500	25,500	23,500
GUJRAT	24,000	33,000	38,000	40,000	34,000	34,000
MADHYA PRADESH	5,000	12,000	12,000	11,000	12,000	9,000
MAHARASHTRA	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000
CENTRAL ZONE	69,000	85,000	90,000	91,000	86,000	88,000
KARNATAKA	15,000	15,000	20,000	18,000	18,000	15,000
ANDHRA PRADESH	7,000	7,500	8,000	8,000	7,000	7,000
TELANGANA	25,000	30,000	45,000	50,000	48,000	45,000
TAMILNADU	-	-	-	-	-	-
SOUTH ZONE	47,000	52,500	73,000	76,000	73,000	67,000
ODISHA	1,100	2,000	2,000	2,000	2,500	1,900
TOTAL	143,600	166,000	191,500	195,500	187,000	180,400

ARRIVAL IN 170 Kg.



POONAM ENGINEERING WORKS

| All Pulses Dali Mill are Manufacturing | Grain Cleaning Plant, Besan Plant | Chakki Aata Plant | Industrial Dust Collector etc.



VIRAJ AGRO TECH
SPECIALIZE IN : CNC LEZER TUBE CUTTING, CNC LEZER PLAT CUTTING

Gravity Separator



Vibro Separator (MTRA)



Sheet Cutting CNC Lezer Machine



Pulverizer



Centrifugal



Tubes Cutting CNC Lezer Machine



Grain Dryer



Grain Dryer Trolley








Plot No. N-243 & N-246 MIDC Phase 4, Near Yevta Square, Akola Growth Center, Shivapur, Akola, Dist. Akola - MH (INDIA) - 444 104

Mob.: +91 9766477484, +91 9730003529, 0724-2991484

Office No. : +91 9371007484

Web : www.poonamengworks.in Email : poonamengworks4@gmail.com

Indian scientists, call for cutting edge R&D to increase cotton yield



They stress the need to increase productivity from the current 447 kg/hectare as meet in Salem. India should focus on cutting edge research and development to increase cotton productivity and farmers' income, the country's top agricultural scientists and experts said at a national conference on "Pioneering the future of cotton research" in Salem, Tamil Nadu.

The conference was organised by Rasi Seeds as part of its Golden Jubilee celebrations in collaboration with the Federation of Seed Industry in India (FSII). About 150 top researchers and scientists working on cotton from the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), State Agricultural Universities (SAUs) and experts from across the nation took part.

One of the key recommendations at the conference was the need to increase cotton productivity in the country from the current 447 kg per hectare. This is despite India topping other nations in acreage (136.1 lakh hectares) and production (342 lakh bales of 170 kg).

Key factors

Experts and scientists pointed out that factors such as shifting weather patterns, increasing pest and disease challenges and slow adoption of advanced technologies have hindered the growth in yield, resulting in the productivity plateauing over the past 5-7 years.

"This national conference is aimed at reiterating the significant role and urgent need of cutting-edge R&D in the cotton crop in India, exploring holistic solutions to increase cotton productivity. Specific focus on enabling technological and policy interventions is the need of the hour to ensure India's cotton sector remains sustainable, profitable and globally competitive," said M Ramasami, Chairman of Rasi Seeds, a veteran with over 50 years of experience in the seed sector.

At the conference, Rasi Seeds signed several Memorandum of Understanding (MoUs) with Central Institute of Cotton Research (CICR), ICAR, Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), and Annamalai University. These MoUs aim to advance farmers' training programmes including cotton advisories through radio broadcasting to bring awareness on various issues such as management of the Pink Bollworm menace and drive research projects on cotton crop improvement.

RS Paroda, Founder-Chairman, Trust for Advancement of Agricultural Sciences (TAAS), called for partnerships in cotton research, which is pivotal for the sustainable growth of the cotton industry.

Charting better path

DK Yadava, ADG (Seeds), ICAR, said: "Considering the distinctive hurdles we encounter, collaboration among all stakeholders is crucial for charting a meaningful path ahead. India's potential is vast, demanding concerted efforts to tackle the low-productivity challenge."

YG Prasad, Director, CICR-Nagpur, said: "Public and private partnership is the need of the hour to address the biotic and abiotic factors affecting the cotton crops currently."

Ajai Rana, FSII Chairman, said India needs to adopt a science-based and unbiased approach towards innovative technologies in seeds and biotechnology.

Ram Kaundinya, Director-General, FSII, said continued investment in science and research is the key to overcoming challenges like the ones affecting cotton crop yields currently.

TOP 5

NEWS OF THE WEEK

Cotton procurement by CCI in the state increased

Amid a surge in cotton arrivals and low prices in Madhya Pradesh's spot markets, cotton procurement by the Cotton Corporation of India (CCI), a nodal agency set up under the Ministry of Textiles for cotton trading and procurement, has picked up. speed up

MSMEs in Coimbatore, Tirupur formed a human chain demanding reduction in electricity charges

Thousands of people from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector formed a human chain in Coimbatore city on Wednesday demanding revision in fixed power charges.

Attacks on merchant ships increased the cost of textile export freight.

The Red Sea is one of the busiest trade routes connecting Europe and Asia, but recent attacks have forced merchant ships to take a circuitous route around Africa, adding an extra 6,000 nautical miles.

New cotton prices have fallen due to fewer buyers.

A surge in cotton supply in the spot markets amid a fall in purchases from textile mills has pushed down new season cotton prices, leading to increased purchases by the Cotton Corporation of India (CCI).

The supply of cotton was estimated at 345 lakh bales

The Cotton Association of India (CAI) estimates that the total supply of cotton in the country for the 2023-24 cotton season will be 345 lakh bales (170 kg each).

Cotton Physical Market: There was an upward trend in cotton prices in the last week of December.

This week was a positive one for the cotton physical market. Growth was seen in all three zones, North, South and Central.

An increase of Rs 25 per maund was seen in North Zone Punjab. An increase of Rs 50 per maund was also seen in Upper Rajasthan, Haryana market increased by Rs 30 per maund.

Whereas in the central zone, the market remained stable in Madhya Pradesh and Maharashtra. In Gujarat, there was an increase of Rs 200 per candy.

In the South Zone market also, an increase of Rs 100 and Rs 300 per piece was seen in Odisha and Karnataka respectively. Andhra Pradesh and Telangana markets remained stable.

STATE		25.12.23		30.12.23		CHANGE
STAPLE LENGTH		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	5,450	5,525	5,500	5,550	25
HARYANA	27.5/28	5,400	5,400	5,430	5,430	30
UPER RAJASTHAN	28	5,000	5,475	5,075	5,525	50
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	55,200	55,400	55,400	55,600	200
MADHYA PRADESH	29	54,300	54,800	54,200	54,800	0
MAHARASHTRA	29+ vid.	54,500	55,000	54,300	55,000	0
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5+	55,300	55,500	55,500	55,600	100
KARNATAKA	29 mm	54,500	54,700	54,500	55,000	300
ANDHRA PRADESH	29	54,000	54,500	54,000	54,500	0
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	55,000	55,500	55,200	55,500	0

NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality.
Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy